



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, सप्ताह, मार्च 2, 1970/फाल्गुन 11, 1891

No. 72] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1970/PHALGUNA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1970

S.O. 838.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 493, dated the 11th February, 1966, and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 1724, dated the 30th April, 1969, the Central Government hereby authorises with effect from the 2nd March, 1970, Shri B. L. Gupta to take over the management of the whole of the New Bhopal Textiles Limited, Bhopal vice Shri P. C. Aggarwal, until further Orders.

[No. F.7(20)/70-Tex.(G).]

DEVINDAR NATH, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1970

का० आ० 838.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूत-पूर्व वाणिज्य मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 493, दिनांक 11 फरवरी, 1966 का

आंशिक संशोधन करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1724, दिनांक 30 अप्रैल, 1969 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी० एल० गुप्ता को, श्री पी० सी० अग्रवाल के स्थान पर 2 मार्च, 1970 से, आगामी आवेशों तक, सम्पूर्ण न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लिमिटेड, भोपाल का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं० फा० 7 (20)/70-टैक्स (जी)]

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव।